



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2017/ पौष 13, 1938

No. 03]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2017/PAUSA 13, 1938

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2016

फा. सं. 11-1/2015-भा.उ.प.—भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48वां) के खण्ड 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्न विनियम बनाती है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : इन्हें Amendments for Auxiliary Nurses and Midwives syllabus and regulation कहा सकता है ।
2. ये विनियम जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन—III/4/असा./354/16]

सहायक नर्स और प्रसाविका पाठ्यक्रम और विनियमों में संशोधन

पाठ्यक्रम की अवधि

पाठ्यक्रम की कुल अवधि 2 वर्ष (18 महीने + 6 महीने स्थानबद्ध प्रशिक्षण)

पहला वर्ष:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| i. कुल सप्ताह | — 52 सप्ताह |
| ii. अवकाश | — 4 सप्ताह |
| iii. राजपत्रित छुट्टियां | — 2 सप्ताह |
| iv. उपक्रमात्मक छुट्टियां और परीक्षा | — 3 सप्ताह |
| v. उपलब्ध सप्ताह | — 43 सप्ताह |

पहले शैक्षणिक वर्ष के लिए उपलब्ध कुल घंटे

— 43 सप्ताह × 40 घंटे/सप्ताह = 1720 घंटे

दूसरा वर्ष (स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित)

- | | |
|--------------------------|-------------|
| i. कुल सप्ताह | — 52 सप्ताह |
| ii. अवकाश | — 4 सप्ताह |
| iii. राजपत्रित छुट्टियां | — 2 सप्ताह |

iv. उपक्रमात्मक छुट्टियां और परीक्षा

— 2 सप्ताह

v. उपलब्ध सप्ताह

— 44 सप्ताह

दूसरे शैक्षणिक वर्ष के लिए उपलब्ध कुल घंटे

— 44 सप्ताह × 40 घंटे/सप्ताह = 1760 घंटे

दाखिले के उपबंध और शर्तें:

1. दाखिले की न्यूनतम आयु जिस वर्ष में दाखिला लिया जा रहा है उसके 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष होनी चाहिए।
2. दाखिले की अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी।
3. न्यूनतम अर्हता सीबीएसई/आईसीएसई/एसएसएससीई/एचएससीई द्वारा मान्यताप्राप्त (10+2 पाठ्यक्रम) 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पास अथवा मान्यताप्राप्त समतुल्य परीक्षा होगी।

अध्ययन का पाठ्यक्रम

पहला वर्ष:

क्रम संख्या	उपचर्या पाठ्यक्रम	क्लासरूम घंटे			अनुभव		
		सिद्धांत	निदर्शन	योग	अस्पताल	समुदाय	योग
i.	सामुदायिक स्वास्थ्य उपचर्या	120	50	170	10	100	110
ii.	स्वास्थ्य प्रोन्नति	120	75	195	20	180	200
	ए. पोषण	35	20	55			
	बी. मानवशरीर और स्वास्थ्य विज्ञान	35	20	55			
	सी. पर्यावरणात्मक स्वच्छता	20	15	35			
	डी. मानसिक स्वास्थ्य	30	10	40			
iii.	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपचर्या-I	140	150	290	90	300	390
	ए. संक्रमण और प्रतिरक्षण	25	20	45			
	बी. संचारी रोग	40	25	65			
	सी. सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं	30	50	80			
	डी. प्राथमिक चिकित्सीय देखभाल	20	20	40			
	ई. प्राथमिक उपचार और प्रेषण	25	35	60			
iv.	बाल स्वास्थ्य उपचर्या	75	110	185	80	100	180
	कुल घंटे	455	385	840	200	680	880

योग = 1720 घंटे

दूसरा वर्ष (पहले 6 महीने)

क्रम संख्या	उपचर्या पाठ्यक्रम	क्लासरूम घंटे			अनुभव		
		सिद्धांत	निदर्शन	योग	अस्पताल	समुदाय	योग
v.	प्रसूति विद्या	200	160	360	220	160	380
vi.	स्वास्थ्य केन्द्र प्रबंध	40	40	80		60	60
	कुल घंटे	240	200	440	220	220	440

योग = 880 घंटे

दूसरा वर्ष (स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि)

क्रम संख्या	उपचर्या पाठ्यक्रम	अनुभव		
		अस्पताल	समुदाय	योग
i.	प्रसूतिविद्या	240	240	480
	• प्रसव-पूर्व वार्ड	40		
	• प्रसवकालीन/प्रसव कक्ष	120		
	• प्रसवोत्तर वार्ड	40		
	• नवजात देखभाल यूनिट	40		
ii.	बाल स्वास्थ्य	80	160	240
iii.	सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केन्द्र प्रबंध		160	160
	कुल घंटे	320	560	880

कुल = स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि में 880 घंटे

सकल योग = 1760 घंटे

स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतः

- क. एएनएम छात्रों (4-5 के समूह में) को समुदाय में पर्यवेक्षित स्वतंत्र अभ्यास के लिए जोकि आवासीय होना चाहिए एक महीने/4 सप्ताह के वास्ते एक नियमित एएनएम के साथ किसी उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात किया जाना चाहिए।
- ख. छात्रों को अपने नैदानिक अनुभव के दौरान सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए।
- ग. अंतिम (दूसरा वर्ष) परीक्षा में बैठने से पहले सभी नैदानिक अपेक्षाओं में से कम से कम 80% अपेक्षाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।
- घ. एएनएम स्कूल के प्रिंसिपल को प्रत्येक छात्र के लिए यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसने सफलतापूर्वक स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है, 100% नैदानिक अपेक्षाएं पूरी की हैं और राज्य उपचर्या परिषद/परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा प्रदान किए जाने से पूर्व पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध अपेक्षित क्षमताएं अर्जित कर ली हैं।
- ड. रोगी पुस्तिका और क्षमता रिकार्ड पुस्तिका स्कूल के सक्षम अधिकारी द्वारा पूरी की जानी चाहिए और हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- च. परीक्षा स्थानबद्ध प्रशिक्षण के बाद आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की योजना**पहले वर्ष के अंत में सैद्धांतिक और व्यावहारिक परीक्षाएं**

प्रश्नपत्र	पाठ्यक्रम	बाह्य मूल्यांकन	आंतरिक मूल्यांकन	अवधि
सिद्धांत प्रश्नपत्र I	सामुदायिक स्वास्थ्य उपचर्या	75	25	3 घंटे
सिद्धांत प्रश्नपत्र II	स्वास्थ्य प्रोन्नति	75	25	3 घंटे
सिद्धांत प्रश्नपत्र III	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपचर्या	75	25	3 घंटे
सिद्धांत प्रश्नपत्र IV	बाल स्वास्थ्य उपचर्या	75	25	3 घंटे
व्यावहारिक I	सामुदायिक स्वास्थ्य उपचर्या और स्वास्थ्य प्रोन्नति	100	100	
व्यावहारिक II	बाल स्वास्थ्य उपचर्या	100	100	
	योग	500	300	

पहले वर्ष के लिए सकल योग 800 अंक

दूसरे वर्ष के अंत में सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षाएं

प्रश्नपत्र	पाठ्यक्रम	बाह्य मूल्यांकन	आंतरिक मूल्यांकन	अवधि
सिद्धांत प्रश्नपत्र V	प्रसूतिविद्या	75	25	3 घंटे
सिद्धांत प्रश्नपत्र VI	स्वास्थ्य केन्द्र प्रबंध	75	25	3 घंटे
व्यावहारिक III	प्रसूतिविद्या	100	100	
व्यावहारिक IV	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य केन्द्र प्रबंध	100	100	
	योग	350	250	

दूसरे वर्ष के लिए सकल योग 600 अंक

व्यावहारिक परीक्षा के लिए स्थान:

- केवल सरकारी जिला (यदि जिला अस्पताल में जिला अस्पताल के साथ सहयोजित कोई नर्सिंग स्कूल या कालेज नहीं है) तो भी दूसरे वर्ष के एएनएम छात्रों के लिए व्यावहारिक परीक्षा जिला अस्पताल में आयोजित की जानी चाहिए।
- जिले में सरकार द्वारा संचालित सभी एएनएम स्कूल अथवा निजी स्कूलों की परीक्षा जिला अस्पताल में आयोजित की जानी चाहिए।
- यदि जिले में बड़ी संख्या में निजी स्कूल मौजूद हैं तो सभी छात्रों को कवर करने के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा की समुचित योजना बनाई जानी चाहिए और चरणों में विभाजित की जानी चाहिए।

प्रसूतिविद्या (स्थानबद्ध प्रशिक्षण)

अपेक्षित क्षमता	अस्पताल अनुभव	सामुदायिक अनुभव
<ul style="list-style-type: none"> सामान्य गर्भवती महिला का आकलन और देखभाल 	<ul style="list-style-type: none"> गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करते हुए गर्भावस्था की जांच करना प्रसव-पूर्व माताओं का पंजीकरण गर्भाधान पूर्व परामर्श रक्तचाप, नाड़ी तथा भ्रूण की हृदयगति मापना, पाण्डुता और छाजन के लिए जांच करना तथा फंडल ऊंचाई, भ्रूण की स्थिति परिशुद्ध रूप से प्रस्तुति हीमोग्लोबिन का आकलन और प्रोटीन तथा शर्करा के लिए मूत्र की जांच करना 20 जन्म-पूर्व महिलाओं की जांच करना (अस्पताल में और समुदाय में) आईएफए पूरक उपलब्ध कराना और 10 महिलाओं को टीटी इंजेक्शन लगाना 	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख घटना रजिस्ट्रों का पंजीकरण और प्रबंध घर पर जन्म-पूर्व जांचें करना उप-केन्द्र में जन्म-पूर्व क्लीनिकों में भाग लेना गर्भवती माताओं की मलेरिया जांच जन्म की तैयारी, जटिलता तत्परता, आहार और विश्राम, शिशु को स्तनपान, गर्भावस्था के दौरान यौन संपर्क, घरेलू हिंसा और गर्भ निरोध
<ul style="list-style-type: none"> सामान्य प्रसव कराना विदारणों की विभिन्न डिग्रियों को पहचानना और आपातक देखभाल प्रदान करना तथा आगे भेजना 	<ul style="list-style-type: none"> प्रसूतिविद्या रोगी पुस्तिका रखना श्रोणि उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए श्रोणि आकलन करना। पीवी परीक्षण 5 पार्टोग्राफ अंकन और यह निर्णय लेना कि महिलाओं को कब आगे भेजा जाए संक्रमण निवारण परिपाटियों का प्रयोग करते हुए प्रसव की तीसरी अवस्था के सक्रिय प्रबंध सहित 10 सुरक्षित प्रसव कराना (अस्पताल और समुदाय में) 5 भगच्छेदन और विदारणों में टांके लगाने में सहायता करना 	<ul style="list-style-type: none"> समुदाय में (बेहतर हो स्वास्थ्य केन्द्रों और घर में) प्रसव कराना

अपेक्षित क्षमता	अस्पताल अनुभव	सामुदायिक अनुभव
<ul style="list-style-type: none"> प्रसवोत्तर माताओं और नवजातों का आकलन और देखभाल 	<ul style="list-style-type: none"> नवजात को आवश्यक देखभाल प्रदान करना 10 नवजात का आधारीक पुनर्जीवन 5 प्रसवोत्तर देखभाल और पोषण का प्रबंध/परामर्श स्तनपान कराने के लिए माताओं को परामर्श/समर्थन तथा स्तनपान से जुड़ी समस्याओं का निवारण/प्रबंध कंगारू माता देखभाल के लिए परामर्श प्रसवोत्तर माताओं की देखभाल 10 (अस्पताल में और समुदाय में) माताओं और व्यक्तियों के समूह के लिए स्वास्थ्य शिक्षा आयोजित करना (प्रत्येक के लिए 3) प्रसव कक्ष और उप-केन्द्र में संक्रमण निवारण और जैवचिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध 	<ul style="list-style-type: none"> 10 प्रसवोत्तर माताओं के घर के कम से कम तीन दौरों सहित 10 दिन तक अनुवर्ती कार्यवाई घर पर नवजात की देखभाल-10 माताओं और व्यक्तियों के समूहों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा आयोजित करना - प्रत्येक के लिए 2 आयुष की स्वीकृत परिपाटियां समेकित करना
<ul style="list-style-type: none"> जो महिलाएं जोखिम पर हैं उनका आकलन और उन्हें आगे भेजना 	<ul style="list-style-type: none"> उच्च जोखिम वाली माताओं को पहचानें और देखभाल प्रदान करें शल्य-प्रसव सेक्शनों के लिए तैयार करें-2 शल्य प्रसव सेक्शन देखें-2 असाधारण प्रसव देखें-2 एमटीपी के लिए तैयार करें और क्रियाविधि का पालन करें गर्भपात वाली महिलाओं की देखभाल करें-2 अंतःशिरा लाइन का निवेश करें महिलाओं में मूत्रल कैथीटर निवेश करें मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन तैयार करें और लगाएं आक्सीटोसिन ड्रिप तैयार करें और लगाएं पीपीएच के प्रबंध के लिए गर्भाशय का बायमैनुअल संपीड़न एचआईवी से ग्रस्त माता की देखभाल अधूरे गर्भपात के लिए गर्भधारण के अवधारित उत्पादों का अंकीय निष्कासन 	<ul style="list-style-type: none"> गांव में एक जटिल शिशु जन्म का वृत्त अध्ययन करें जोखिमपूर्ण महिला के लिए आपातक परिचर्यन के वास्ते ग्राम बैठक आयोजित करें एमटीपी के लिए अवांछित गर्भ वाली महिलाओं की पहचान करें और उन्हें भेजें किन्हीं 10 महीनों से साक्षात्कार करें और असुरक्षित मातृत्व तथा गर्भपात के कारणों को सूचीबद्ध करें उच्च जोखिम वाली माताओं 5 तथा नवजात 5 की पहचान करें और उन्हें उच्चतर केन्द्र को भेजें
<ul style="list-style-type: none"> पात्र दंपतियों को गर्भनिरोध की विभिन्न विधियों की बाबत परामर्श दें बंधीकरण और आईसीयूडी के ग्राहियों 	<ul style="list-style-type: none"> परिवार नियोजन के लिए माता/दंपतियों को परामर्श 5 महिला और 2 पुरुषों के बंधीकरण के लिए तैयार करें और मदद करें (अस्पताल तथा समुदाय में) अंतर्गर्भाशय उपकरणों का निवेशन और 	<ul style="list-style-type: none"> पात्र दंपतियों को गर्भनिरोध की विभिन्न विधियों पर परामर्श दें 2 आईयूसीडी निष्पादित करें (अस्पताल या समुदाय में) मुखीय गोलियां वितरित करें

अपेक्षित क्षमता	अस्पताल अनुभव	सामुदायिक अनुभव
को तैयार करें <ul style="list-style-type: none"> ग्रीवा कैंसर की दिशा 	गर्भनिरोधकों के गर्भनिरोध का नुस्खा <ul style="list-style-type: none"> 2 आईयूसीडी निवेशन निष्पादित करें (अस्पताल और समुदाय में) मौखिक गोलियां बांटें — 5 कंडोमों के प्रयोग का निदर्शन करें और कंडोम वितरित करें — 5 गर्भाशय ग्रीवा की दृश्य निरीक्षण और एक पंपलेप परीक्षण करें — 2 	<ul style="list-style-type: none"> कंडोमों के प्रयोग का निदर्शन करें और कंडोम बांटें ग्रीवा का दृश्य निरीक्षण और एक पेप लेप परीक्षण—2

स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली नैदानिक अपेक्षाएं

उपर्युक्त कौशलों का अभ्यास करने और उनमें क्षमता प्राप्त कर लेने के साथ-साथ छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि के दौरान निम्न अपेक्षा पूरी कर लेंगे:

अपेक्षित क्षमता	अस्पताल और सामुदायिक अनुभव
<ul style="list-style-type: none"> सामान्य गर्भवती महिला का आकलन और देखभाल 	<ul style="list-style-type: none"> 15 प्रसव-पूर्व महिलाओं की जांच करें (अस्पताल और समुदाय में)
<ul style="list-style-type: none"> सामान्य प्रसव कराना विदारणों की विभिन्न मात्राओं की पहचान करना और आपातक देखभाल प्रदान करना और आगे भेजना 	<ul style="list-style-type: none"> श्रोणी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए श्रोणी आकलन करना। पीवी परीक्षण—5 संक्रमण निवारण परिपाटियों का प्रयोग करते हुए प्रसव की तीसरी अवस्था के सक्रिय प्रबंध सहित 10 सुरक्षित प्रसव कराना (अस्पताल और समुदाय में) 5 भगच्छेदन और विदारणों में टांके लगाने में सहायता करना
<ul style="list-style-type: none"> प्रसवोत्तर माताओं और नवजातों का आकलन और देखभाल 	<ul style="list-style-type: none"> नवजात को अनिवार्य देखभाल प्रदान करें — 10 नवजात का आधारिक पुनर्जीवन प्रसवोत्तर माताओं की देखभाल (अस्पताल और समुदाय में)
<ul style="list-style-type: none"> जोखिम वाली माताओं का आकलन और उन्हें आगे भेजना 	<ul style="list-style-type: none"> गर्भपात वाली महिलाओं की देखभाल करें
<ul style="list-style-type: none"> पात्र दंपतियों को गर्भनिरोध की विभिन्न विधियों की बाबत परामर्श देना बंधीकरण और आईसीयूडी के ग्राही तैयार करना ग्रीवा कैंसर की दिशा 	<ul style="list-style-type: none"> 5 महिला और दो पुरुष रोगियों को बंधीकरण के लिए तैयार करें और सहायता करें (अस्पताल तथा समुदाय में) 3 आईयूसीडी निवेशन करें (अस्पताल और समुदाय में) मौखिक गोलियां वितरित करें कंडोमों के प्रयोग का निदर्शन करें और कंडोम बांटे—5
<ul style="list-style-type: none"> रुग्ण नवजात और शिशुओं की देखभाल (आईएमएनसीआई) 	<ul style="list-style-type: none"> आईएमएनसीआई प्रोटोकॉल के अनुसार 5 रोगी नवजात शिशुओं और 5 रोगी बच्चों का आकलन और देखभाल

दूसरे वर्ष में पूरी की जाने वाली नैदानिक अपेक्षाएं

क्षमता	दूसरे वर्ष के पहले छः महीने	स्थानबद्ध प्रशिक्षण	दूसरे वर्ष में कुल
एएनसी	20 (अस्पताल + समुदाय)	15 (अस्पताल + समुदाय)	35 (अस्पताल + समुदाय)
एमटीएसएल सहित सामान्य प्रसव कराना	10 (अस्पताल + समुदाय)	10 (अस्पताल + समुदाय)	20 (अस्पताल + समुदाय)
भगच्छेदन/विदारणों के टांका	5	5	10

लगाने में सहायता करना			
नवजात की देखभाल	10	10	20
सामान्य नवजात का आधारिक पुनर्जीवन	5	5	10
पी/वी जांच	5	5	10
प्रसवोत्तर रोगी	10 (अस्पताल + समुदाय)	5	20 (अस्पताल + समुदाय)
रुग्ण नवजात और बच्चों का प्रबंध (आईएमएनसीआई)	—	5+5	5+5
आईयूसीडी निवेशन	2	3	5

INDIAN NURSING COUNCIL

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2016

F. No. 11-1/2015-INC.—In exercise of the powers conferred by Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), the Indian Nursing Council hereby makes the following regulations namely :—

- (i) **Short title and Commencement.**—These may be called the Revision for Auxiliary Nurses and Midwives syllabus and regulation.
- (ii) These regulations shall come into force on July, 2012.

T. DILEEP KUMAR, President-INC

[ADVT.-III/4/Exty./354/16]

Amendments for Auxiliary Nurses and Midwives syllabus and regulation**Duration of the course:**

The total duration of the course is 2 year (18 months + 6 months internship)

First Year:

- | | | |
|------|--------------------------------------|------------|
| i. | Total weeks | - 52 weeks |
| ii. | Vacation | - 4 weeks |
| iii. | Gazetted holidays | - 2 weeks |
| iv. | Preparatory holidays and examination | - 3 weeks |
| v. | Available weeks | - 43 weeks |

Total available hours for 1st academic year - 43 weeks × 40 hours/week = 1720 hrs

Second year (including internship)

- | | | |
|------|--------------------------------------|------------|
| i. | Total weeks | - 52 weeks |
| ii. | Vacation | - 4 weeks |
| iii. | Gazetted holidays | - 2 weeks |
| iv. | Preparatory holidays and examination | - 2 weeks |
| v. | Available weeks | - 44 weeks |

Total available hours for 2nd academic year - 44 weeks × 40 hours/week = 1760 hrs

Admission terms and Conditions:

1. The minimum age for admission shall be 17 years on or before 31st December of the year in which the admission is sought.
2. The maximum age for admission shall be 30 years.
3. The minimum educational requirement shall be the passing of 12 years of schooling (10+2 year course) recognized by CBSE/ICSE/SSSCE/HSCE or a recognized equivalent examination.

COURSE OF STUDY**FIRST YEAR :**

S.No	NURSING COURSE	CLASSROOM HOURS			EXPERIENCE		
	Course title and description	Theory	Demonstration	Total	Hospital	Community	Total
i.	Community health nursing	120	50	170	10	100	110
ii.	Health Promotion	120	75	195	20	180	200
	A. Nutrition	35	20	55			
	B. Human Body & Hygiene.	35	20	55			
	C. Environmental Sanitation	20	15	35			
	D. Mental Health	30	10	40			
iii.	Primary Health care nursing –I	140	150	290	90	300	390
	A. Infection and immunization	25	20	45			
	B. Communicable Diseases.	40	25	65			
	C. Community health problems.	30	50	80			
	D. Primary medical care	20	20	40			
	E. First aid and referral.	25	35	60			
iv.	Child Health Nursing	75	110	185	80	100	180
	Total Hours	455	385	840	200	680	880

TOTAL = 1720 Hours**SECOND YEAR (First 6 months)**

S.No.	NURSING COURSE	CLASSROOM HOURS			EXPERIENCE		
	Course title and description	Theory	Demonstration	Total	Hospital	Community	Total
v.	Midwifery	200	160	360	220	160	380
vi.	Health Center Management	40	40	80		60	60
	Total Hours	240	200	440	220	220	440

Total 880 Hours**SECOND YEAR (Internship period)**

S.No.	NURSING COURSE	EXPERIENCE		
	Course title and description	Hospital	Community	Total
i.	Midwifery	240	240	480
	• Antenatal ward	40		
	• Intranatal/labour room	120		
	• Post natal ward	40		
	• Neonatal care unit	40		
II.	Child Health	80	160	240
III.	Community Health and Health center management		160	160
	Total Hours	320	560	880

Total = 880 hours in the internship period**Grand Total = 1760 hrs.**

Guidelines for internship:

- The ANM students (in a group of 4-5) should be posted in the sub center/primary health center with a regular ANM for one month/4 weeks for supervised independent practice in the community which should be residential.
- The students should participate in all the National Health and Family Welfare programs during their clinical experience.
- At least 80% of all the clinical requirements should be completed before appearing for the final (Second year) examination.
- The principal of the ANM school should certify for each student that she has undergone successfully the internship program, 100% clinical requirements and acquired the requisite competencies as listed in the syllabus before the award of the certificate/diploma by the state nursing councils/examination boards.
- The casebook and competency record book should be completed and signed by the competent authority of the school.
- Examination will be conducted after the Internship.

Scheme of Examination**Theory and practical examinations at the end of the first year**

Paper	Course	External Assessment	Internal Assessment	Duration
Theory Paper I	Community Health Nursing	75	25	3 hrs
Theory Paper II	Health Promotion	75	25	3 hrs
Theory Paper III	Primary Health Care Nursing	75	25	3 hrs
Theory Paper IV	Child Health Nursing	75	25	3 hrs
Practical I	Community Health Nursing and health promotion	100	100	
Practical II	Child health Nursing	100	100	
	Total	500	300	

Grand total for first year 800 marks**Theory and practical examinations at the end of the Second year**

Paper	Course	External Assessment	Internal Assessment	Duration
Theory Paper V	Midwifery	75	25	3 hrs
Theory Paper VI	Health Centre Management	75	25	3 hrs
Practical III	Midwifery	100	100	
Practical IV	Primary health care and health center management	100	100	
	Total	350	250	

Grand total for second year 600 marks

Venue for Practical Examination:

1. Govt. District only (if the District Hospital is not having School or College of Nursing attached to the District Hospital) even then practical examination of 2nd year ANM students should be conducted at District Hospital.
2. All the ANM Schools run by Government or Private Schools in the District, their examination should be conducted in district hospital.
3. If large number of private Schools exist in the District, proper planning and phasing to be done by examination board to cover all students.

Midwifery (Internship)

Expected competency	Hospital Experiences	Community Experiences
<ul style="list-style-type: none"> Assessment and care of normal pregnant woman 	<ul style="list-style-type: none"> Detecting pregnancy using pregnancy testing kit. Registration of antenatal mothers. Pre conception counseling Measuring the blood pressure, pulse and fetal heart rate, checking for pallor and edema and determining the fundal height, fetal lie and presentation accurately. Hemoglobin estimation and testing urine for protein and sugar Examine 20 antenatal women (in the hospital and community) Provide IFA supplements and administer TT injection to 10 women. 	<ul style="list-style-type: none"> Registration and management of vital events registers. Conduct antenatal examinations at home Participate in antenatal clinics in the sub center Malaria testing for pregnant mothers. Counseling on birth preparedness, complication readiness, diet and rest, infant feeding, sex during pregnancy, domestic violence and contraception.
<ul style="list-style-type: none"> Conduct normal delivery Recognize different degrees of tears give emergency care and refer. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintain midwifery case book Conduction pelvic assessment to determine pelvic adequacy. PV examination 5 Plotting the partograph and deciding when to refer the women. Conduction 10 safe deliveries (in the hospital and community), with active management of the third stage of labour, using infection prevention practices, Assist in the suturing of 5 episiotomies and tears 	<ul style="list-style-type: none"> Conduct deliveries in the community (health centers preferably and home)
<ul style="list-style-type: none"> Assessment and care of postnatal mothers and newborns 	<ul style="list-style-type: none"> Provide essential care of the newborn 10 Basic resuscitation of the newborn 5 Managing/counseling on post-partum care and nutrition Counseling/supporting of mothers for breast feeding and preventing/managing breast feeding problems Counseling for kangaroo mother care Care of postnatal mothers 10 (in 	<ul style="list-style-type: none"> Follow up of 10 postnatal mothers for 10 days with at least 3 home visits. Care of newborns at home -10 Conduct health education for groups of mothers and individuals -2 each Integrate the accepted practices of AYUSH

Expected competency	Hospital Experiences	Community Experiences
	<p>the hospital and community)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conduct health education for groups of mothers and individuals – 3 each • Follow infection prevention and biomedical waste management in the labour room and sub center 	
<ul style="list-style-type: none"> • Assessing and referring mothers at risk 	<ul style="list-style-type: none"> • Identify high-risk mothers and give care • Prepare for caesarean sections -2 • Observe caesarean section -2 • Observe abnormal deliveries 5 • Prepare for MTP and observe procedure -2 • Take care of women with abortion -2 • Insert an intravenous line. • Insert a urinary catheter in women • Preparation and administration of magnesium sulphate injection. • Preparation and administration of oxytocin drip. • Bimanual compression of the uterus for the management of PPH • Care of mother with HIV. • Digital removal of retained products of conception for incomplete abortion. • Provide post abortion care. 	<ul style="list-style-type: none"> • Do a case study of complicated childbirth in the village • Conduct a village meeting for emergency transport of women at risk • Identify and refer women with unwanted pregnancy for MTP • Interview any 10 women and list reasons for unsafe motherhood and abortion • Identify high risk mothers 5 and newborns 5 and refer them to the higher center
<ul style="list-style-type: none"> • Counsel eligible couples about different methods of contraception • Prepare acceptors for sterilization and IUCDs • Direction of cervical cancer 	<ul style="list-style-type: none"> • Counseling of mother/couples for family planning. • Prepare and assist for sterilization of 5 female and 2 male cases (in the hospital or community) • Insertion of intra uterine devices and prescription of contraception of contraceptives. • Perform 2 IUCD insertions (in the hospital or community) • Distribute oral pills -5 • Demonstrate the use of condoms and distribute condoms -5 • Visual inspection of the cervix and taking a pap smear test -2 	<ul style="list-style-type: none"> • Counsel eligible couples on different methods of contraception • Perform 2 IUCD insertions (in the hospital or Community) • Distribute oral pills -5 • Demonstrate the use of condoms and distribute condoms -5 • Visual inspection of the cervix and taking a pap smear test -2

Clinical requirements to be completed during the internship period:-

In addition to practicing and gaining competency in the above mentioned skills, the students are expected to complete the following requirements during the internship period:

Expected competency	Hospital and community experiences
<ul style="list-style-type: none"> Assessment and care of normal pregnant woman 	<ul style="list-style-type: none"> Examine 15 antenatal women (in the hospital and community)
<ul style="list-style-type: none"> Conduct normal delivery Recognize different degrees of tears give emergency care and refer. 	<ul style="list-style-type: none"> Conducting pelvic assessment to determine pelvic adequacy. PV examination 5 Conducting 10 safe deliveries (in the hospital and community), with active management of the third stage of labour, using infection prevention practices. Assist in the suturing of 5 episiotomies and tears
<ul style="list-style-type: none"> Assessment and care of postnatal mothers and newborns 	<ul style="list-style-type: none"> Provide essential care of the newborn -10 Basic Resuscitation of the newborn -5 Care of postnatal mothers 10 (in the hospital and community)
<ul style="list-style-type: none"> Assessing and referring mother at risk 	<ul style="list-style-type: none"> Take care of women with abortion -2
<ul style="list-style-type: none"> Counsel eligible couples about different methods of contraception Prepare acceptors for sterilization and IUCDs Detection of cervical cancer 	<ul style="list-style-type: none"> Prepare and assist for sterilization of 5 female and 2 male cases (in the hospital or community) Perform 3 IUCD insertions (in the hospital or community) Distribute oral pills -5 Demonstrate the use of condoms and distribute condoms -5
<ul style="list-style-type: none"> Management of sick neonates and children (IMNCI) 	<ul style="list-style-type: none"> Assessment and care of 5 sick neonates and 5 sick children as per the IMNCI protocols.

Clinical requirements to be completed during the 2nd year:-

Competency	1st 6 months of 2nd year	Internship	Total during 2nd year
ANC	20 (hospital + Community)	15 (Hospital + community)	35 (hospital + community)
Conducting normal deliveries with AMTSL	10 (Hospital + community*)	10 (Hospital + community)	20 (Hospital + Community)
Assist suturing of Episiotomy/tears	5	5	10
Care of new born	10	10	20
Basic resusc. Of normal new born	5	5	10
P/V Examination	5	5	10
Postnatal cases	10 (hospital + Community)	10	20 (hospital + community)
Management of sick neonates and children (IMNCI)	-	5+5	5+5
IUCD insertion	2	3	5